



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़ 1937 (श0)
(सं0 पटना 704) पटना, शुक्रवार, 26 जून 2015

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

26 जून 2015

एस0ओ0 148, दिनांक 26 जून 2015—बंगाल, आगरा एवं आसाम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1887 (अधिनियम-XII, वर्ष 1887) की धारा-13 की उप-धारा (1) एवं धारा-14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व अधिसूचनाओं एवं आदेशों का उपान्तरण करते हुए बिहार-राज्यपाल निदेश देते हैं कि:-

- (क) दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल अनुमंडल में अवर न्यायाधीश [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)] का न्यायालय स्थापित किया जायेगा,
- (ख) बिरौल अनुमंडल के लिए पूर्व में गठित एवं वर्तमान में बेनीपुर में कार्यरत अनुमंडलीय न्यायालय, एवं अन्य न्यायालय, एतद् द्वारा बिरौल में पुनर्स्थापित किये जायेंगे,
- (ग) बिरौल अनुमंडल के अवर न्यायाधीश [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)] के न्यायालय एवं उपर्युक्त अंकित अन्य न्यायालयों की अधिकारिता दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल की सम्पूर्ण स्थानीय सीमाएं रहेंगी,
- (घ) बिरौल अनुमंडल के अवर न्यायाधीश [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)] का न्यायालय एवं बिरौल अनुमंडल के लिए पूर्व में गठित अन्य सभी न्यायालय जो वर्तमान में बेनीपुर में कार्यरत हैं अब बिरौल में बैठेंगे।
- (ङ) यह अधिसूचना दिनांक 27 जून, 2015 से प्रभावी होगी।।

(सं0सं0-ए/एक्ट-6/2010-4141/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

26 जून 2015

एस0ओ0 149, एस0ओ0 148 दिनांक 26 जून 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(संस0-ए/एक्ट-6/2010-4141/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

The 26th June 2015

S.O. 148, dated 26th June 2015— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 and Sub-Section (1) of Section 14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act 1887 (Act XII of 1887) and in modification of the previous notifications and orders issued on the subject the Governor of Bihar is pleased to direct that:-

- (a) The Court of Subordinate Judge [Civil Judge (Senior Division)] of Biraul Sub-division in the district of Darbhanga shall be established at Biraul;
- (b) Sub-divisional Court and other Courts previously constituted for Biraul Sub-division and at present functioning at Benipur Sub-division, shall be hereby relocated at Biraul;
- (c) The jurisdiction of the Court of Subordinate Judge [Civil Judge (Senior Division)] and the other aforesaid Courts of Biraul Sub-division, shall be the entire local limits of the Sub-division of Biraul in the District of Darbhanga;
- (d) The Court of Sub-ordinate Judge [Civil Judge (Senior Division)] and all other courts previously constituted for Biraul Sub-division, at present functioning at Benipur, shall now hold their sittings at Biraul.
- (e) This Notification shall come into force with effect from dated the 27th June, 2015.

(File No.-A/Act-6/2010-4141/J.)

By Order of the Governor of Bihar,

AKHILESH KUMAR JAIN,*Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 704-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>